

**Date: 13<sup>th</sup> February, 2026**

To,

**The Manager- Listing Department,  
BSE Limited**

P. J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001

**Vice President**

**National Securities Depository Limited**

301, 3rd Floor, Naman Chambers,  
G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla  
Complex, Bandra East, Mumbai- 400051

**Subject: Submission of Newspaper Advertisement related to Extraordinary General Meeting,  
Record Date and other related information**

**Ref.: Scrip Code: 544221 (KIZI APPARELS LIMITED)**

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we submit herewith copies of newspaper advertisement related to **08<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting** of the **KIZI APPARELS LIMITED** scheduled to be held on **Monday, 09<sup>th</sup> March, 2026 at 3:00 P.M. IST** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), other related information, published on **Friday, 13<sup>th</sup> February, 2026** in newspapers viz. **The Indian Express and Business Remedies**.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,  
Yours faithfully,  
**FOR, KIZI APPARELS LIMITED**

**ABHISHEK NATHANI**  
**MANAGING DIRECTOR**  
**DIN: 10086861**







ब्लैक बॉक्स ने वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए

बिज़नेस रेमेडीज/  
नई दिल्ली/आईएएनएस

भारतनेट दुनिया के सबसे बड़े सरकारी नेतृत्व वाले कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक है और यह डिजिटल डिवाइड को पाटने और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है। यह बयान केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिषादित्य सिंघिया ने गुरुवार को दिया।

केंद्रीय मंत्री सिधिया ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भारतनेट भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है और पिछले ग्यारह वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

विदेश मंत्रालय ने वैश्विक समझौते के तहत सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की।

बिज़नेस रेमेडीज/  
नई दिल्ली/आईएएनएस

विदेश मंत्रालय ने अंतराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) और भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के सहयोग से सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन (जीसीएम) पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बताया कि 9 फरवरी को हुई ये परामर्श बैठक मई 2026 में होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (आईएमआरएफ) के लिए भारत की तैयारी का हिस्सा है।

**‘भारत ने एआई सेक्टर में  
बनाई वैश्विक पहचान,  
यूएस ट्रेड डील में किसानों  
के हित सुरक्षित’**

बिबेन नस रेमेडीज/नई  
दिल्ली/ आईएनएस।  
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते  
को लेकर चर्चाओं के बीच  
पून्चूर इकोनॉमिक कोऑपरेशन  
काउंसिल (एफईसीसी) की  
एजीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियम  
गान्धी मोदी ने न्यूज एजेंसी  
आईएनएस से बात करते हुए  
भारत की वैश्विक स्थिति को  
लेकर कड़ी बड़ी बातें कही हैं।  
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल  
इंटेलिजेंस और उससे जुड़े  
इकोसिस्टम के विस्तार में भारत  
आज दुनिया के शीर्ष तीन-चार  
देशों में शामिल है। साथ ही  
उन्होंने भरोसा दिलाया कि  
संभावित ट्रेड डील में किसानों  
और डेयरी सेक्टर के हितों की  
पूरी तरह रक्षा की जाएगी।

प्रियम गांधी मोदी ने कहा कि भारत ने एआई और उससे जुड़े इंडोस्ट्रिय को मजबूत बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक स्तर पर एआई और उससे जुड़े क्षेत्रों को तेजी से विकसित करने वाले शीर्ष तीन या चार देशों में शामिल है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार को बधाई भी दी। अमेरिका-भारत संभावित व्यापार समझौते को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने के लिए हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश का स्वागत है, लेकिन समझौते की पूरी शर्तें अभी तय होनी बाकी हैं। दोनों सरकारों द्वारा इस पर ठोस टिप्पणी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष अक्सर उन पहलुओं का भी विरोध करता है जो देश के हित में होते हैं। यदि वे किसी कदम का विरोध कर रहे हैं, तो संभव है कि वह देश के लिए फायदेमंद ही हो। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समझौते पर अंतिम राय देने से पहले उसके पूरे विवरण सामने आने का इंतजार करना चाहिए।



नेतृत्व में भारत ने मोबाइल और ब्राडबैंड कनेक्टिविटी और अंतर्भाव्य विस्तार देखा है, जो एथिओपिया डिजिटल परिवर्तन-नक्शा को गति दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत-नेट ग्रामाफाड़ पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबरब्रिडज केबल बिछाकर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। देश की कुल 2,56,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 2,14,000 ग्राम नेट चरण I और II के तहत ऑनलाइन किया गया है, जिसकी

अनुमानित लागत 42,000 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 2014 में 93 करोड़ से बढ़कर आज 1.2 अरब हो गई है, जबकि मोबाइल पहुँच 75 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है, जबकि पहुँच 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71.8 प्रतिशत हो

गई है।

ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भी 6 करोड़ से बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है, जबकि औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड अब लगभग 61.55 एमबीपीएस है। सिंधिया ने 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0 के 2030 के लक्ष्यों के बारे में भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 61.55 एमबीपीएस है, 2030 तक लक्ष्य, इसे 100 एमबीपीएस तक ले जाना है। वहीं, दिसंबर 2025 तक 42,000 गांवों में 95 प्रतिशत अपटाइम के साथ ओएफएस कोनेक्टिविटी हासिल की गई है, इसे 2030 तक 2.7 लाख गांवों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बिजनेस रेमेडीज/  
मुंबई /आईएएनएस


डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों की अग्रणी कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अपने अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने निरंतर

वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व और परिचालन लाभ दोनों में सुधार हुआ। अपने परिवर्तन कार्यक्रम को अब स्थिर करने और एक केंद्रित बाजार-दू-मार्केट आकिटेक्चर के साथ, कंपनी राजस्व बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले व्यापार मिश्रण की ओर आगे बढ़ रही है। बदेवते ऑर्डर, बैकलॉग का विस्तार,

बेहतर निष्पादन, ग्राहक संबंधों को गहरा करने और एक स्वस्थ पाइपलाइन के साथ कंपनी आने वाली तिमाहियों में विकास पथ के लिए मजबूती से तैयार है।

ब्लैक बॉक्स का वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में राजस्व 1,660 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में यह 1,585 करोड़ रुपए था।

जो साल-दर-साल 11 प्रतिशत की वृद्धि और तिमाही-दर-तिमाही 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो निरंतर निष्पादन और बेहतर गति से प्रेरित है। तिमाही के लिए ईबीआईटीडीपी 147 करोड़ रुपए था, जो साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि और तिमाही-दर-तिमाही 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।



**KIZI APPARELS LIMITED**  
INCORPORATED IN INDIA  
REGD. OFFICE: 10086861

**Kizi Apparels Limited**  
INCORPORATED IN INDIA  
REGD. OFFICE: 10086861

---

**Address: H-629, Sitapura, Industrial Area, Phase-II, Jaipur-302022.**  
**Tel.: 9983023939 Email: info@kiziapparels.com Web: www.kiziapparels.com**

**NOTICE OF EIGHT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OF OTHER AUDIO-VISUAL MEANS**

1. Notice is hereby given that the **8<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting ("EGM")** of the Company will be convened through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on **Monday, 09<sup>th</sup> March, 2026 at 03:00 P.M. IST** in accordance with and in compliance with the procedure prescribed in the General Circular Nos. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May 2020 and 03/2025 dated 22<sup>nd</sup> September, 2025 and other circulars issued in this respect ("MCA Circulars") and relevant SEBI Circulars (collectively referred as 'Circulars') to transact the businesses as set out in the Notice calling the EGM without physical presence of shareholders at a common venue.

In compliance with above mentioned Circulars, Notice of EGM have been sent through electronic mode to those shareholders who have registered their e-mail IDs with depositories or with the Company. The EGM notice is also available on the Company's website [www.kiziappearls.co.in](http://www.kiziappearls.co.in), website of stock exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

**INSTRUCTIONS FOR E-VOTING:**

The Company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and relevant rules made thereunder and Regulation - 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Company has engaged NSDL as the authorized agency to provide e-voting facility to its all members.

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is Friday, 27<sup>th</sup> February, 2026. The remote e-voting facility shall be open from Thursday, 05<sup>th</sup> March, 2026 at 09:00 A.M and ends on Sunday, 08<sup>th</sup> March, 2026 at 5:00 P.M. for all the shareholders. Remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said date and time. The members who remain present in the EGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting facility during the EGM.

The members may participate in the meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the meeting. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting at EGM are forming part of the Notice of EGM.

The Members who have not registered their email IDs with the Depository Participant/ Registrar and Share Transfer agent of the Company and are willing to vote through e-voting/ remote e-voting are requested to refer detailed instruction for remote e-voting facility and e-voting at EGM are forming part of the Notice of EGM.


Any person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may cast their votes by following the instructions and process of e-voting as provided in the Notice of EGM.

In case Member who have not registered their e-mail address, are requested to contact their respective Depository Participant for registering the email addresses.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

**For and on Behalf of the Board of Directors of**  
**KIZI APPARELS LIMITED**  
**ABHISHEK NATHANI**  
**MANAGING DIRECTOR (DIN: 10086861)**

यूनिंक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड				
सी आई आई एन : L241159RJ1993PLC007148				
रजि. ऑफिस: ई-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-22 (राज.)				
दूरभाष: 91-141-2770315 / 2770509				
वेबसाइट : www.uniqueorganics.com ई-मेल : compliance@uniqueorganics.com				
31.12.2025 को समाप्त तिमाही के संक्षिप्त स्टेटमेंटअलीन				
अनांकित वित्तीय परिणाम				
(रु. लाखों में रुपये के बीच)				
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	मौजूदा समय के लिए	विगत वर्ष में समाप्त संबंधित तिमाही
		(31.12.2025)	साल-दर-साल के आंकड़े (31.12.2025)	(31.12.2024)
		अनांकित	अनांकित	अनांकित
1.	प्रचालनों से कुल आय	1,782.53	7,056.13	6,149.90
2.	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	263.22	872.38	403.70
3.	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	263.22	872.38	403.70
4.	अवधि के लिए कर पश्चात् निवल लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	196.97	652.99	302.09
5.	अवधि के लिए कुल समय आय अवधि हेतुलाभ / (हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य समय आय (कर पश्चात्) सम्मिलित	196.97	652.99	302.09
6.	समाप्ता अंश प्रति	595.30	595.30	595.30
7.	आखिरत निधियां (गत वर्ष के अकेले तालन पत्र में प्रदर्शित पुनर्प्राप्त निधियों को छोड़कर)	2,710.62	2,710.62	1,656.30
8.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) (सतत एवं असतत परिचालनों से)	3.31	10.97	5.07
	मूल:	3.31	10.97	5.07
	अवशिष्ट:	3.31	10.97	5.07

<div>    <b>NPST</b>   <small>Innovation in every byte</small> </div>							
<b>NETWORK PEOPLE SERVICES TECHNOLOGIES LIMITED</b>							
<b>CIN No.: L74110MH2013PLC248874</b>							
<b>Registered Office : 427/428/429, A-Wing, NSIL, Lodha Supremus II,</b>							
<b>Near New Passport Office, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400604</b>							
<b>Tel.: 022-6148 2100; Email: cs@npstx.com; Website: www.npstx.com</b>							
<b>EXTRACTS OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025</b>							
<b>(₹ in Lacs)</b>							
Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended
		(Unaudited)			(Unaudited)		(Audited)
		31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025
1	Total Income from Operations	5,717.11	4,867.41	2,324.69	14,093.45	15,250.57	18,061.99
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,598.62	1,349.21	680.56	3,914.51	5,208.25	6,035.14
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,598.62	1,349.21	680.56	3,914.51	5,208.25	6,035.14
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,154.23	984.45	513.39	2,858.80	3,911.25	4,520.13
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,157.42	982.14	513.39	2,868.97	3,911.25	4,537.30
6	Equity Share Capital	2,085.00	1,939.53	1,938.99	2,085.00	1,938.99	1,938.99
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						8,431.81
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations) –						
1. Basic:		5.92	5.00	2.51	14.66	20.07	23.31
2. Diluted:		5.92	4.40	2.49	14.66	20.03	23.28

**Notes:**


- The above unaudited Consolidated financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2025 have been prepared by the Company in accordance with regulation 33 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and thereafter were approved and taken on record by the board of directors in their meeting held on February 11, 2026. A limited review of the above results has been carried out by the statutory auditor's of the company.
- Previous Year's/period's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- Holding Company is mainly engaged in providing software and payment solutions to banking and finance sector. Looking into the nature of business company, it is operating under single segment hence as per Ind AS – 108 – "operating segment" reporting is not applicable to company
- Following subsidiary company has been considered in the preparation of the consolidated financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2025.

Name of entity	Relationship	Country of incorporation	% of Holding
[1] Network People Services Technologies Limited	Parent	India	NA
[2] SSK Citizen Services Private Limited	Subsidiary	India	99.80%
[3] Timepay Digital Infotech Private Limited	Subsidiary	India	85.00%
[4] NPST Global Solutions LLC	Subsidiary	UAE	100.00%

- The statement includes the results for the period ended 31st December, 2025 being the balancing figure between unaudited figures upto the period ended on 31st December, 2025 and the unaudited figures in respect of 1st half year of the current financial year (2025-26).
- The Holding Company migrated to mainboard in April 2025, and hence, the financial statements were prepared as per Ind AS for the financial year 2024-25. The comparative numbers reported for Quarter and nine months ended December 2024 are restated to make it comparable.
- The Government of India had announced the implementation of four Labour Codes effective 21st November 2025, consolidating 29 existing labour laws. However, there is no incremental impact of this on group's results.

For and on behalf of,

**NETWORK PEOPLE SERVICES TECHNOLOGIES LIMITED**



Sd/-  
**Ashish Aggarwal**  
Joint Managing Director  
DIN: 06986812

**Date : 11<sup>th</sup> February 2026**

**Place : Mumbai**